

—प्रेस नोट—

जनपद-मीरजापुर

थाना अदलहाट पुलिस द्वारा क्रूरता पूर्वक वध हेतु ले जाये जा रहे 20 राशि गोवंश

बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार —

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पशु तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.12.2020 को रात्रि में प्र०नि० प्रमोद कुमार यादव मय हमराह थाना क्षेत्र की देखभाल एवं गश्त/चेकिंग में मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक पर गोवंश लादकर मीरजापुर की तरफ से नरायनपुर होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा गंगा नहर पुलिया पर वाहनों की सघन चेकिंग की जाने लगी, तभी एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर ट्रक चालक द्वारा ट्रक की गति तेजकर भागने लगा पुलिस द्वारा पीछा करके चालक नुमान पुत्र सैफुद्दीन निवासी अहमदपुर असरौली थाना पुरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी को ट्रक संख्या यूपी 70 एफटी 0050 सहित कब्जे में लिया गया। उक्त ट्रक की तलाशी ली गयी तो उससे क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाये जा रहे कुल 20 राशि बैलों को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को मा० न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नुमान पूछताछ में बताया कि उसके दो अन्य सहयोगी भी थे किन्तु पुलिस द्वारा ट्रक रोकने के इसारे के उपरान्त वे ट्रक से उतर कर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1- नुमान पुत्र सैफुद्दीन निवासी अहमदपुर असरौली थाना पुरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता—

1- राहुल पुत्र अज्ञात निवासी मझनपुर करारी जनपद कौशाम्बी।

2-नियोजुल्लाह पुत्र सफतुल्लाह निवासी एचएल90/93 करेली प्रयागराज।

विवरण बरामदगी —

20 राशि गोवंश (बैल)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण —

1- प्र०नि० प्रमोद कुमार यादव थाना अदलहाट, मीरजापुर।

2- व०उ०नि० विनोद कुमार यादव थाना अदलहाट, मीरजापुर।

3- का० शिवभवन यादव थाना अदलहाट, मीरजापुर।

4- का० छोटेलाल थाना अदलहाट, मीरजापुर।

5- का० पंकज दूबे थाना अदलहाट, मीरजापुर।

6- का० विनय यादव थाना अदलहाट, मीरजापुर।





जनपद- मीरजापुर



प्रभारी निरीक्षक
प्रमोद कुमार
मो.नं. 9454404002

धूम्रपान/ तम्बाकू रहित क्षेत्र
यहाँ धूम्रपान करना
एक अपराध है।
जुआ कानून (1867) - 20पने तक अज्ञानता किया जाएगा।
विनाश करने को छोड़ें और व्यक्ति धूम्रपान करने विरुद्ध संदेश दें
से संपूर्ण निम्न अधिकारी को सिकायात करें।
1. प्रभारी
2. सहायक
3. सहायक निरीक्षक
4. प्रभारी

कारोना वायरस का प्रसारण रोकें
संक्रमण को रोकें

1800-180-5145